

Foreign Sector - विदेशी क्षेत्र

1. भुगतान संतुलन खाता :-

[Balance of Payment A/c या BoP A/c]


किसी देश के द्वारा शेष दुनिया के साथ किस जाने वाले आर्थिक लेन-देन के वार्षिक वित्तीय विवरण को BoP Account कहते हैं।

इस खाते में दो प्रकार की प्रविष्टियों (entries) की जाती हैं जिन्हें डेबिट (debit) और क्रेडिट (credit) के नाम से संबोधित किया जाता है।

यदि किसी लेन-देन के कारण संबंधित राष्ट्र को शेष दुनिया को भुगतान करना पड़े तो ऐसा लेन-देन उस राष्ट्र के BoP Account में डेबिट प्रविष्टि का निर्माण करता है जैसे कि किसी वस्तु का आयात करना आदि।

इसी प्रकार, यदि किसी लेन-देन के कारण संबंधित राष्ट्र को शेष दुनिया से भुगतान की प्राप्ति होती है तो ऐसा लेन-देन उस राष्ट्र के BoP Account में क्रेडिट प्रविष्टि का निर्माण करता है जैसे कि किसी वस्तु का निर्यात आदि।

Structure of BoP Account



** ECB - External Commercial Borrowings.

नोट :-

- Trade Account (व्यापार खाता) या Visible Account (दृश्य खाता) में केवल वस्तुओं के IMPEX (Import-Export) को लिखा जाता है।

इस खाते की निवल स्थिति (Total Credit - Total Debit) को BOA (Balance of Trade Account) कहते हैं।

यदि BOA सकारात्मक होता है तो इस स्थिति को Trade Surplus (व्यापार अधिशेष) कहते हैं।

यदि BOA नकारात्मक होता है तो इस स्थिति को Trade Deficit (व्यापार घाटा) कहते हैं।

- भूदृश्य खाता (Invisible Account) में सेवा व्यापार और एक तरफा स्थानांतरणों को लिखा जाता है।

इस खाते की निवल स्थिति (Total Credit - Total Debit) को BOI (Balance of Invisible Account) कहते हैं।

यदि BOI सकारात्मक होता है तो इसे Invisible Surplus (भूदृश्य अधिशेष) कहते हैं और यदि BOI नकारात्मक होता है तो इसे Invisible Deficit (भूदृश्य घाटा) कहते हैं।

- सम्पूर्ण-चालू खाते (Current A/C) की निवल स्थिति (Total Credit - Total Debit) को CAB (Current Account Balance) कहते हैं।

यह $BoT + BoI$ होता है।

यदि CAB सकारात्मक है तो इसे CAS (Current Account Surplus) कहते हैं और यदि नकारात्मक है तो इसे CAD (Current Account Deficit) कहते हैं।

- Capital Account (पूंजी खाता) में सम्पत्ति और दायित्वों का प्रभावित करने वाले लेन-देन लिखे जाते हैं।

इस खाते में की जाने वाली प्रविष्टियों से संबंधित राशियों में Capital Inflows (पूंजीगत अन्तर्प्रवाह) उत्पन्न होते हैं जबकि इस खाते में होने वाली Debit प्रविष्टियों से Capital outflows (पूंजीगत बहिर्प्रवाह) उत्पन्न होते हैं।

- Capital Inflows के निम्न उदाहरण दिए जा सकते हैं (भारत की दृष्टि में रखे हुए) -

- (i) विदेशी निवेशकों द्वारा भारत में इक्विटी, बांड आदि में निवेश करना।
- (ii) भारतीयों द्वारा विदेशों से ऋण लेना।
- (iii) विदेशियों द्वारा भारत के प्रति ऋणों को कम करना।
- (iv) भारतीयों द्वारा विदेशी संपत्तियों को कम करना।

यदि उपर्युक्त उदाहरणों को पलट दिया जाए तो Capital outflows के उदाहरण तैयार हो जाएंगे।

• FOREX (Foreign exchange, Reserve) में निम्न-लिखित items को सम्मिलित किया जाता है-

(i) FCA - Foreign Currency Assets [PT]

(ii) Gold

(iii) SDR आवंटन

(iv) RTP = Reserve Tranche Position

IMF के विलीय योगदान (Quota) का 25% भाग जो बाहरी को convertible currencies / Hard currencies (जैसे कि - डॉलर, यूरो, पौण्ड आदि) में जमा कराना होता है।